

प्रेस नोट- थाना गगहा दिनांक 19-11-2020

बरामदगी 13 राशि गाय व 8 राशि बैल व एक अदद ट्रक थाना गगहा जनपद गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन व थानाध्यक्ष गगहा श्री राजप्रकाश सिंह मय पुलिस फोर्स के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित में क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली की एक ट्रक 12 चक्का जिसका नंबर UP50AT2162 गाय व बैल को आजमगढ़ से लादकर बड़हलगंज होते हुए गोकशी के लिए बिहार ले जाया जा रहा है अगर जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मैं SO मय हमराही कर्मचारीगण सहित मय मुखबिर के प्रस्थान कर हाटा बाजार में सभी अधिकारी कर्मचारी गण बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था कर आने जाने वाले बड़े वाहनों की गहनता से चेकिंग करने लगे तथा मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी का इंतजार करने लगे तभी थोड़ी देर में बड़हलगंज की तरफ से एक ट्रक तेज गति से आती हुई दिखाई दी। जिसको हम पुलिस वाले गाड़ी नजदीक आने पर रुकने का इशारा किया तो ट्रक ड्राइवर ने हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया कि हम पुलिस वाले अपने सीखे हुए तरीकों (हिकमत अमली) से किसी तरह जान बचाए कि ट्रक चालक तेज गति से भागने लगा तब हम पुलिस वालों द्वारा पीछा किया तो गाड़ी लहराने की वजह से गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई अंधेरा व कोहरा का फायदा उठाते हुए गाड़ी वही छोड़ करके ट्रक चालक सहित बैठे हुए अन्य तीन चार पशु तस्कर हट बढ़ गए हम पुलिस वालों ने अपराधियों का पीछा कर पकड़ने का पूरा प्रयास किए किंतु रात्रि व कोहरा होने के कारण पकड़े नहीं जा सके हम पुलिस वालों ने वापस आकर ट्रक के पास आकर देखा तो उक्त ट्रक के अंदर कुल 21 राशि गाय व बैल ठूस ठूस कर भरे हुए हैं जिनके मुंह व पैर रस्सी से बांधकर एक दूसरे के ऊपर लिटाये थे जिनके मुंह से झाग आ रही है जिनको ट्रक से हमराही कर्मचारियों व स्थानीय चौकीदारों वह आम लोगों की मदद से पशुओं की रस्सी काट कर एक-एक करके नीचे उतारा गया उन्हें पानी व पुआल तत्काल दिया गया जिसमें 8 राशि बैल तथा 13 राशि गाय जिसमें 1 राशि गाय मरी हुई बरामद हुई। बरामद ट्रक के नंबर प्लेट को चेक किया गया तो जिस पर नंबर-UP50AT2162 अंकित है। बरामदशुदा बैल व गाय को चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए, मृत एक अदद गाय का पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया।

मुकदमा –

मु0अ0सं0 742/20 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भादवि व 207 MV एक्ट बनाम 3-4 अज्ञात अभियुक्त

बरामदगी का समय व स्थान –

19/11/20 समय 4.45 am बजे स्थान हाटा बाजार (गोरखपुर से बड़हलगंज हाइवे मार्ग)

बरामदगी –

8 राशि बैल तथा 13 राशि गाय जिसमें 1 राशि गाय मरी हुई व एक अदद ट्रक।

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण-

1. थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह
2. उ0नि0 प्रभात सिंह
3. उ0नि0 मायाराम यादव
4. का0 दीपू कुँवर
5. का0 विनीत यादव
6. का0 विजय कुमार यादव
7. का0 नन्दलाल गौड़
8. का0 नंदन कुमार सिंह
9. का0 राजू पटेल